

कपास नई खोज



भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक संवाद-पत्र

देखें: www.cicr.org.in

अंक: 1 खंड: 4 मार्च 29 - अप्रैल 4, 2015

के.क.अ.सं के स्थापना दिवस का समारोह

केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने दि. 1.4.2015 को आनंद और उत्साह सहित अपने 39 वें स्थापना दिवस मनाया। डॉ. के.आर. क्रांति, निदेशक, के.क.अ.सं, नागपुर ने समारोह की अध्यक्षता की। डॉ.सी.डी.मायी, पूर्व अध्यक्ष ए.एस.आर.बी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। के.क.अ.सं, नागपुर के पूर्व-निदेशकों डॉ.एम.एस.कैरोन, डॉ.एन.डी.मणिकर, डॉ.के.डी. कोराण्णे एवं डॉ.पुन्दन सिंग उस दिन के विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किए गये थे। खाद्य स्टालों एवं खेल का आयोजन फसल सुधार, फसल संरक्षण, फसल उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान केन्द्र और प्रशासन प्रभागों / अनुभागों द्वारा किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे गायन, चुटकुले, विनोदी काव्य आदि डॉ.जी.बालसुब्रमणि, प्रधान वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित की गईं। समापन समारोह के दौरान, स्वागत भाषण डॉ.संध्या क्रांति, प्रधान, फसल संरक्षण विभाग द्वारा दिया गया था। डॉ. के.आर. क्रांति, निदेशक, के.क.अ.सं., ने मुख्य अतिथि और सम्मान के विशेष अतिथियों को सम्मानित किया। डॉ. गौतम मजूमदार, वर्ष के वैज्ञानिक, डॉ. एम.एस.यादव - वर्ष के तकनीकी अधिकारी, श्री.वी.डी.बेंडे, वर्ष के प्रशासनिक कर्मचारी एवं श्री. एन.आर.टिटामारे, वर्ष के कुशल सहायक कर्मचारी को पुरस्कार दिए गए। इस दिवस के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं और हरकारा के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। डॉ. सी.डी.माई, मुख्य अतिथि ने संक्षिप्त भाषण दिया और सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। श्री. सचिन अग्निहोत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया। के.क.अ.सं, के सभी कर्मचारियों ने समारोह में भाग लिया।



के.क.अ.सं के स्थापना दिवस का समारोह



प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान

कपास के विकास में लगे हुए विभिन्न कॉर्पोरेट संगठन के विस्तार कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में "बेहतर कपास पहल" के तत्वावधान में दि. 31.3.2015 को होटल कम्फोर्ट-ईन्स, भटिंडा में आयोजित किया गया था। डॉ. डी.मोंगा, प्रधान, के.क.अ.सं, क्षेत्रीय केंद्र, सिर्सा एवं डॉ. ऋषिकुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक (कीट-विज्ञान) ने व्याख्यान दिया एवं प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की। डॉ. मोंगा ने "वर्तमान कपास परिदृश्य", उत्पादकता की कमी एवं कपास के प्रमुख रोगों एवं उनके प्रबंधन पर भाषण दिया। डॉ. ऋषि कुमार ने "कपास में समन्वित कीट प्रबंधन" के विषय पर एक व्याख्यान दिया।

निर्मित एवं प्रकाशित: डॉ. के.आर.क्रांति, निदेशक, के.क.अ.सं, नागपुर
 प्रमुख संपादक: डॉ. नंदिनी गोकटे-नाखडेकर
 संपादकों: डॉ. जे.एन्नि शीबा, डॉ. विश्लेष नगरारे, डॉ. जे.अमुदा एवं डॉ. एम.शरवणन
 जनसंचार माध्यम समर्थन एवं रूपांकन: डॉ. एम.सबेष एवं श्री. एस.सत्यकुमार
 हिन्दी अनुवाद: श्रीमति. के.सुभ्रशी एवं डॉ. अ.हि.प्रकाश
 निर्मित समर्थन: श्री. संजय कुशवाहा

प्रमाण: कपास नई खोज अंक-1, खंड-4, 2015, भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

प्रकाशन टिप्पणी: यह समाचार पत्र आनलाईन <http://www.cicr.org.in/News Letter.html> में उपलब्ध है।
 कपास नई खोज एक खुला उपयोग कपास समाचार पत्र है।

कपास नई खोज-के.क.अ.सं, समाचार पत्र केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक संवाद-पत्र.
 कार्यालय: पांजरी, एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लॉन्ट के पास, वर्धा रोड, नागपुर- 441 108.
 दूरभाष: 07103-275536 फैक्स: 07103-275529; E-mail: cicrnagpur@gmail.com

